

Date: May 03, 2024

To,

**The Manager - Listing
Dept of Corp. Services,
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 543593**

**The Manager – Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai – 400 051
Symbol: DBOL**

Dear Sir/Mam,

Sub: Newspaper Publication of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of Business Standard (English and Hindi both) dated May 03, 2025 wherein the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended March 31, 2025 have been published.

You are requested to take note of the same.

Thanking you
Your Sincerely,
For Dhampur Bio Organics Limited

**Ashu Rawat
Company Secretary & Compliance Officer**

WAVES 2025: DAY 2

Vaishnaw calls for co-production treaties, bridging digital divide

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 2 May

At the Global Media Dialogue between 77 countries at World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), Union Minister of Information & Broadcasting Ashwini Vaishnaw said that the focus should be on co-production treaties, joint funds and a declaration which helps bridge the digital divide, foster brotherhood, global peace and harmony.

“We need to thus widen the global bridge of creativity to an expressway of ideas,” Vaishnaw said.

Some member nations shared concerns on the need to enhance “responsible journalism”, which they felt can be addressed by mutual collaborations on the forum of WAVES, Press Information Bureau (PIB) said.

Vaishnaw also said in his opening remarks that culture inspires creativity which connects people across borders. He also stressed on the crucial role of collaborations for common success. “We need to focus on co-production treaties, joint funds and a declaration



“THERE IS A NEED FOR RESPONSIBLE USE OF EMERGING TECHNOLOGIES, WHICH REDUCES BIAS, DEMOCRATISES CONTENT, AND PRIORITISES ETHICS

S JAISHANKAR,
External Affairs Minister

ration which helps us bridge the digital divide, foster brotherhood, global peace and harmony,” he said.

During the deliberations, senior-level delegations expressed their views and said that India informed participating nations about the 32 Create in India challenges, which resulted in identification of over 700 top creators



“WE NEED TO WIDEN THE GLOBAL BRIDGE OF CREATIVITY TO AN EXPRESSWAY OF IDEAS... CULTURE INSPIRES CREATIVITY WHICH CONNECTS PEOPLE ACROSS BORDERS”

ASHWINI VAISHNAW,
I&B Minister

from across the globe in the first season of WAVES. “India informed the members that from the next edition, these challenges will be conducted in 25 global languages so that creative talent can be identified from across the globe in different languages. This will help them showcase their creative content at WAVES forum,” PIB said.

External Affairs Minister S Jaishankar said that the summit brings together content creators, policy makers, actors, writers, producers and visual artists on a common platform for discussing a future roadmap for the media and entertainment sector.

He also touched upon the broad contours under consideration at the Global Media Dialogue.

He noted that the world order, which has a strong cultural dimension, is under transformation. “It is essential that we give voice to our traditions, heritage, ideas, practices and creativity”, he said.

He also stated that technology and tradition must go hand in hand as technology can strengthen awareness of India’s vast heritage and deepen consciousness about it, especially for the younger generations.

“It is crucial that young talent is made ready for an age of creative collaborations through relevant skill development. Innovation is key to the leapfrogging that will build Viksit Bharat”, he highlighted.

More on business-standard.com

India big focus market for YouTube: Gautam Anand

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 2 May

India is a huge focus market for YouTube for every initiative that it is working on, said Gautam Anand, YouTube’s Vice President for Asia Pacific region, while citing the launches of YouTube Shorts and YouTube Create apps — which were first launched in India.

“It is a huge focus market for us on everything that we’re doing, (for example) YouTube Shorts was first launched in India before anywhere else in the world. Also, our YouTube Create app was first launched in India before anywhere else in the world. India is one of the few markets globally where we are focused on shopping and commerce,” Anand told *Business Standard* on the sidelines of the World Audio Visual and Entertainment Summit.

He said that initially, the platform’s shopping and commerce model was just focused in the US, South Korea, and



“WE UNDERSTAND THAT INDIA NOT ONLY HAS A MASSIVE SCALE, BUT ALSO TREMENDOUS GROWTH POTENTIAL”

GAUTAM ANAND,
YouTube's vice-president for Asia Pacific

India. But now, YouTube has added Indonesia and a few other markets in Southeast Asia.

On similar lines, its branding initiative is also a major focus in India.

“It’s one of the few markets where we’re really focused. Our attention is here because we understand that India not only has a massive scale, but also has a tremendous growth potential,” he said.

Recently, the platform had launched a partnership with Flipkart to help or give opportunities for creators to generate revenue through affiliate fees. This comes after a rising

number of brands focused their budgets on brand collaborations and brand deals.

“That’s an area that we’re also now trying to figure out (on) how we do more for our creators and fostering that connection between brands and creators (that) will become increasingly important (for the platform),” he noted.

Globally, YouTube has 125 million premium users. While Anand did not disclose the premium users it has in India, he said: “I would just say that I’m super excited about the growth prospects for premium subscription here.

Tata Comm plans to expand into regional sports

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 2 May

Tata Communications, which is considered as the leader in recording and broadcasting live sports events, is looking to take its leadership in the global sports environment to regional sports, a top executive of the company told *Business Standard*.

“Today, we are considered to be a leader when it comes to global live sports,” said Dhaval Ponda (pictured), global head, media and entertainment, Tata Communications, on the sidelines of the ongoing World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES).

“If you look at all the global sports that are consumed anywhere in the world, approximately two out of three events would have something to do with us.

That’s a very disproportionate impact, with close to 67-70 per cent of all global live sports we would enable in some form or manner. That is the kind of impact that we have today,” he said.

Ponda added that the company now has a very strong regional presence in North America, South America, Europe, the Middle East, and parts of Asia.

“They know us because we bring in the most expensive and the most sought-after tournaments. If you go to Mexico, we will probably bring in the FIFA tournament live for them (people in Mexico) as they already know that we are bringing



in a very top-tier tournament,” he explained.

In India, the company has had a strong history of enabling cricket and using technology to provide remote production to broadcasters in the country.

“Our presence has always been in enabling cricket consumption at scale all over the Indian subcontinent and then bringing that content to the world as well. We have also had sustained growth when it comes to other forms of sport. We have done kabaddi for a long time and other forms of sports as well,” he noted.

The company is also working with the

Athletics Federation to have a better grass roots presence for a lot of athletics competitions in the country. He added that the company has a strong interest in javelin due to the sport’s presence in the Olympics, with India having won two major Olympic medals in it recently.

“We are looking to see how we can use technology and the presence of Tata group to go deeper at a grass roots level and to televise events that were not televised before; we want to further improve our broadcast facilities available on ground,” he said.

Generally, the live sports segment continues to be a very strong driver for revenue growth for the company, because people spend a lot of money to acquire sports rights. Globally, the sports rights market value is about \$80 billion to \$100 billion.

India cradle of civilisation whose time has come once again: Nita Ambani

India is the cradle of civilisation, whose time has come once again, JioStar’s chairperson Nita Ambani said on Friday.

Ambani, the wife of richest Indian Mukesh Ambani, also announced that the Nita Mukesh Ambani Culture Centre will organise an Indian weekend in New York’s Lincoln Centre this September, which will showcase India’s arts.

Speaking at the WAVES 2025 event held at the Jio Convention Centre, Ambani said India is a “timeless civilisation” which has given the enduring ideals of truth, non-violence and humility to the world. “For centuries, India has gifted the world its wisdom, its beauty and its soul, but somewhere along the way our voice softened. But now, it is rising again,” she said. “We are the very cradle of civilisation, a cultural force whose time has come once

again,” Ambani added.

Every civilisation tells its stories, she said, pointing out that while some tell it with their power and might, India has always told her’s with “soul”.

The modern does not compete but coexists harmoniously with ancient in India, Ambani said, stressing this sets us apart. We cherish our similarities and celebrate our differences, and hold our contradictions with grace, she added.

Elaborating on the show in NY, Ambani said NMACC will “proudly present” the show. “We will spotlight the soul of India in all its glory. Our arts and artisans, our weaves and weavers, and song and dances, and fashion and food,” she said, adding that the time has come for Indian culture to not just inspire the world but also make the world a better place.

Sleep myths docs want you to stop believing before they harm you

BARKHA MATHUR
New Delhi, 2 May

We live in a productivity-obsessed world where hustle is glorified, and sleep often becomes the first things sacrificed. But sleep isn’t just rest—it’s restoration. From late-night scrolling to weekend sleep binges, countless myths around sleep continue to circulate, and believing them could be silently damaging your physical and mental health. So, how much of what we believe about sleep is true?

Myth: Can you function well on just 4 or 5 hours of sleep a night?

Fact: Most adults need 7–9 hours of sleep for optimal health. While rare “short sleepers” do exist due to genetic variation, the vast majority cannot adapt to chronic sleep deprivation without consequences — from poor brain function to weakened immunity, and heart risk. Feeling ‘fine’ doesn’t mean your body isn’t silently suffering.

Myth: Does sleeping in on weekends make up for weekday sleep loss?

Fact: You can’t fully repay ‘sleep debt.’ According to Dr Vikas Mittal, director — pulmonologist, CK Birla Hospital, Delhi, erratic sleep schedules disrupt the circadian rhythm and worsen fatigue, mood, and metabolism. Consistency, not compensation, is the key to healthy rest.

Myth: If you’re not sleepy, are you getting enough rest?

Fact: Lack of tiredness isn’t a green light. “Many people become accustomed to functioning with sleep deprivation,” says Dr Nandani Gulati, senior consultant, pulmonology, Fortis Hospital, Vasant Kunj.

Myth: Can short naps replace a full night of deep, restorative sleep?

Fact: Short naps may offer a temporary energy boost, but don’t substitute deep, restorative sleep. Your body needs night-time sleep cycles — especially REM and slow-wave stages—for full recovery. These stages are crucial for memory and learning and occur cyclically throughout the night.

Myth: Do older adults need less sleep than younger people?

Fact: Sleep needs don’t drastically decline with age. While older adults might experience lighter sleep or wake more often, Dr Mittal confirms they still require 7–8 hours of sleep to maintain physical and cognitive health.

Myth: Is one night of poor sleep harmful to your health?

Fact: Even a single sleepless night can impair focus, memory, mood, and immune response. Repeat that over time, and you’re increasing your risk of chronic conditions like hypertension, diabetes, and depression.

Myth: Does alcohol actually help you sleep better at night?

Fact: Alcohol may help you sleep faster, but it disrupts deep sleep and REM cycles. “It fragments sleep and can worsen sleep apnoea, a sleep disorder where breathing repeatedly stops and starts during sleep,” says Dr Gulati. You may wake up more often and feel less rested.

Myth: Is watching TV or using your phone before bed good for relaxation?

Fact: Screens emit blue light, which suppresses melatonin — the hormone that signals sleep. This tricks your brain into staying alert. For better sleep, ditch the screens at least 30–60 minutes before bedtime.

Myth: Is snoring just annoying, or a sign of a serious health issue?

Fact: Loud, persistent snoring may signal obstructive sleep apnoea (OSA), a condition linked to heart disease, stroke, and high blood pressure. “Snoring should never be ignored,” warns Dr Mittal.

Myth: Are sleeping pills safe and effective for long-term use?

Fact: Doctors say sleeping pills are meant for short-term relief under medical supervision. Long-term use can lead to dependence, poor sleep quality, and memory issues. The root cause of insomnia needs targeted treatment, not just pills.

Myth: Is more sleep always better for your health and energy?

Fact: Quality trumps quantity. Oversleeping—especially with underlying disorders like sleep apnoea—can still leave you tired. Good sleep means cycling through the right stages at the right times.

Myth: Can exercising right before bed help you fall asleep faster?

Fact: While regular exercise supports better sleep, vigorous activity close to bedtime can overstimulate your system. Experts suggest winding down workouts at least 2–3 hours before turning in. Sleep isn’t a luxury—it’s a non-negotiable pillar of health, just like eating right and staying active. According to Dr Gulati, correcting these common myths can drastically improve your energy, focus, mood, and even longevity.

Read full report: mybs.in/2emu6lm



DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED

Regd. Office : Sugar Mill Compound, Village Asmoli Sambhal
Moradabad, UP - 244304 IN

CIN - L15100UP2020PLC136939, Phone No +91-7302318313

Email : investors@dhampur.com, Website - www.dhampur.com

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

		₹ in Crore)				
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31/Mar/25 (Audited)*	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/24 (Audited)*	31/Mar/25 (Audited)	31/Mar/24 (Audited)
1.	Total Income from Operations	703.80	719.25	599.66	2,696.64	2,418.29
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	60.57	-8.38	54.36	17.47	65.49
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60.57	-10.14	54.36	15.71	65.49
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.80	-6.86	39.41	14.69	46.49
5.	Total Comprehensive Income for the period	46.12	-6.29	38.59	16.72	45.56
6.	Paid up Equity Share Capital	66.39	66.39	66.39	66.39	66.39
7.	Other Equity				945.35	945.08
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)					
	Basic & diluted (₹ per share)	₹ 6.75	₹ -1.03	₹ 5.94	₹ 2.21	₹ 7.00

*Refer note ii) below

Notes:

- The above financial results are approved in the meeting of the Board of Directors held on May 02, 2025 after being reviewed and recommended by the Audit Committee.
- The figures for the last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the Holding Company.
- Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.
- The Board of directors of the Company at its meeting held on May 02, 2025 recommended final dividend of 12.5% (i.e. ₹ 1.25 per share on face value of ₹ 10/- per share) amounting to ₹ 8.30 Crores.
- Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.
- The consolidated financial results are available on the website of the Company (www.dhampur.com).

The specified items of the standalone financial results of the Company are given below:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31/Mar/25 (Audited)*	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/24 (Audited)*	31/Mar/25 (Audited)	31/Mar/24 (Audited)
Total Income	703.57	741.08	599.44	2,718.11	2,384.88
Profit before tax	60.27	-9.61	55.22	17.84	66.87
Profit after tax	39.65	-6.21	41.22	12.09	48.82



Place : New Delhi
Dated: May 02, 2025

For Dhampur Bio Organics Limited
Sd/-
Gautam Goel
Managing Director & CEO
DIN 00076326

Markets, Insight Out

Markets, **Monday to Saturday**

To book your copy, sms **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
50 Years of Insight



